

INTERMEDIATE EXAMINATION – 2022 (ANNUAL)

Model Set

Subject Code :- 220

I.Com.

Accountancy (Elective).

लेखाशास्त्र (ऐच्छिक)

पूर्णांक – 100

समय:- 3 घंटे 15 मिनट

Full Marks -100

Time:- 3 hours 15 minute

कुल प्रश्नों की संख्या : $100 + 30 + 8 = 138$

Total no. of questions : $100 + 30 + 8 = 138$

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :-

Instructions for the candidates :-

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।

Candidate must enter his/her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.

2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable.

3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।

Figures in the right hand margin indicate full marks.

4. प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

15 minutes of extra time has been allotted for the candidates to read the questions carefully.

5. यह प्रश्न पुस्तिका दो खण्डों में है, खण्ड-अ एवं खण्ड-ब।

This question Booklet is divided into two sections: **Section-A** and **Section-B**.

6. खण्ड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर उपलब्ध कराये गये OMR उत्तर पत्रक में दिये गये सही वृत्त को नीले/काले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के हाइटनर/तरल पदार्थ/ब्लेड/नाखून आदि का उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।

In **Section-A**, There are 100 objective type questions, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answer will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each Question carries 1 mark. Darken the circle with blue/black ball pen against the correct option on OMR Answer Sheet provided to you. Do not use Whitener/liquid/blade/nail etc. on OMR-Sheet, otherwise the result will be invalid.

7. खण्ड-ब में 30 लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है।

In **Section-B**, there are 30 Short answer type questions. Each question carries 2 marks, out of which any 15 questions are to be answered. Apart from this, there are 8 Long Answer type questions, each question carries 5 marks, out of which any 4 questions are to be answered.

8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है।

Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

Section- A
खण्ड-अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए 50 प्रश्नों के सही विकल्प को OMR-शीट पर चिन्हित करें। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। $50 \times 1 = 50$

Question No.- 1 to 100 have four options, out of which only one is correct. Answer any 50 questions. You have to mark your selected option on the OMR-Sheet. Each question carries 1 (one) mark. $50 \times 1 = 50$

1. आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है :-

- (A) सभी नगद प्राप्तियाँ एवं भुगतान
- (B) सभी उधार प्राप्तियाँ एवं भुगतान
- (C) सभी नगद प्राप्तियाँ एवं उधार भुगतान
- (D) इनमें से कोई नहीं

Income and Expenditure Account records :-

- (A) All cash receipts and payments

(B) All credit receipts and payments

(C) All cash and credit receipts and payments

(D) None of these

2. विशेष दान है –

(A) पूँजीगत प्राप्ति

(B) आयगत प्राप्ति

(C) सम्पत्ति

(D) इनमें से कोई नहीं

Specific donation is -

(A) Capital Receipt

(B) Revenue Receipt

(C) Asset

(D) None of these

3. आय-व्यय खाते में लेन-देन दर्ज करने के लिए लिखे जाते हैं –

(A) केवल पूँजीगत प्रकृति

(B) केवल आयगत प्रकृति

(C) A एवं B दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

Income and Expenditure Account records transactions of -

(A) Capital nature only

(B) Revenue nature only

(C) A and B both

(D) None of these

4. प्राप्ति एवं भुगतान खाता है –

(A) व्यक्तिगत खाता

(B) वास्तविक खाता

(C) नाममात्र खाता

(D) इनमें से कोई नहीं

Receipts and payments Account is a -

- (A) Personal Account (B) Real Account
(C) Nominal Account (D) None of these

5. सचिव को मानदेय का भुगतान है –

- (A) पूँजीगत व्यय (B) आयगत व्यय
(C) आय (D) इनमें से कोई नहीं

Payment of honorarium to secretary is treated as -

- (A) Capital expenditure (B) Revenue expenditure
(C) An Income (D) None of these

6. “लाभ न करने वाली संस्था” का मुख्य उद्देश्य होता है –

- (A) लाभ करना (B) समाज की सेवा करना
(C) लाभ-हानि खाता तैयार करना (D) उपरोक्त सभी

The main objective of non-profit organisation is -

- (A) To earn profit
(B) To serve the society
(C) To prepare profit and loss A/C
(D) All the above

7. पूँजी कोष की गणना की जाती है –

- (A) आय-व्यय (B) सम्पत्ति-दायित्व

(C) पूँजी + दायित्व (D) इनमें से कोई नहीं

Capital fund is calculated as -

(A) Income - Expenditure (B) Assets - Liabilities

(C) Capital + Liabilities (D) None of these

8. प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है –

(A) आधिक्य / घाटा (B) रोकड़ शेष

(C) पूँजी कोष (D) शुद्ध लाभ / हानि

Receipts and Payments Account usually indicates -

(A) Surplus/deficit (B) Cash balance

(C) Capital fund (D) Net profit/loss

9. निम्न में से कौन-सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जायेगी ?

(A) अदत्त वेतन (B) ह्लास

(C) आजीवन सदस्यता शुल्क (D) उपार्जित चन्दा

Which one of the following items, is shown in the Receipts and payments account ?

(A) Outstanding Salary (B) Depreciation

(C) Life Membership Fees (D) Accrued Subscription

10. निम्न में से कौन आय नहीं है ?

(A) चन्दा (B) दान

(C) टिकट की बिक्री

(D) एण्डोमेन्ट निधि

Which of the following is not an Income ?

(A) Subscription

(B) Donation

(C) Sale of Ticket

(D) Endowment Fund

11. प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है –

(A) समस्त पूँजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का

(B) समस्त आयगत प्राप्ति एवं भुगतानों का

(C) समस्त आयगत एवं पूँजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Receipt and payment Account is a summary of -

(A) All capital receipts and payments

(B) All revenue receipts and payments

(C) All revenue and capital receipts and payments

(D) None of the above

12. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है –

(A) पूँजी पर ब्याज पाने का

(B) वेतन पाने का

(C) कमीशन पाने का

(D) इनमें से कोई नहीं

In the absence of partnership deed, a partner is not entitled to receive :-

- (A) Interest on capital (B) Salary
(C) Commission (D) None of these

13. इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है ?

- (A) समझौता (B) लाभ-विभाजन
(C) सीमित-दायित्व (D) दो या दो से अधिक व्यक्ति

Which one of the following is not the feature of partnership ?

- (A) Agreement (B) Sharing of Profit
(C) Limited Liability (D) Two or more than two persons

14. फर्म के लिए, पूँजी पर ब्याज है –

- (A) पूँजी प्राप्ति (B) पूँजी भुगतान
(C) आय (D) हानि

For the firm, interest on capital is -

- (A) Capital Receipt (B) Capital payment
(C) Income (D) Loss

15. साझेदार के पूँजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है –

- (A) पूँजी पर ब्याज (B) आहरण पर ब्याज
(C) आहरण (D) हानि में हिस्सा

The opening balance of partners capital account is credited with :-

- (A) Interest on capital (B) Interest on drawing
(C) Drawings (D) Share in Loss

16. साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूँजी पर ब्याज दिया जायेगा –

- (A) 8% वार्षिक (B) 6% वार्षिक
(C) 9% वार्षिक (D) इनमें से कोई नहीं

In the absence of partnership deed, Interest on capital will be given to the partners at -

- (A) 8% P.A. (B) 6% P.A.
(C) 9% P.A. (D) None of these

17. चालू खाता है –

- (A) व्यक्तिगत खाता (B) वास्तविक खाता
(C) नाममात्र खाता (D) इनमें से कोई नहीं

Current Account is -

- (A) Personal Account (B) Real Account
(C) Nominal Account (D) None of these

18. साझेदारों की पूँजी पर ब्याज है –

- (A) व्यय (B) विनियोजन
(C) लाभ (D) इनमें से कोई नहीं

Interest on partners capital is -

- (A) Expenditure (B) Appropriation
(C) Gain (D) None of these

19. साझेदारों का फर्म से संबंध होता है –

- (A) स्वामी का (B) एजेण्ट का
(C) स्वामी एवं एजेण्ट का (D) प्रबन्धक का

The relation of partners with the firm is that of -

- (A) An owner (B) An agent
(C) An owner and an agent (D) Manager

20. साझेदारों का दायित्व होता है –

- (A) सीमित
(B) असीमित
(C) साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित
(D) इनमें से कोई नहीं

Liabilities of partners is -

- (A) Limited
(B) Unlimited
(C) Determined by partnership Act
(D) None of these

21. साझेदारी अनुबन्ध बनाना है –

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (A) अनिवार्य | (B) ऐच्छिक |
| (C) अंशतः अनिवार्य | (D) इनमें से कोई नहीं |

Preparation of partnership agreement is -

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (A) Compulsory | (B) Voluntary |
| (C) Partly Compulsory | (D) None of these |

22. सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है –

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (A) डेबिट शेष | (B) क्रेडिट शेष |
| (C) डेविट एवं क्रेडिट शेष | (D) इनमें से कोई नहीं |

General Reserve Account always shows -

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (A) Debit balance | (B) Credit balance |
| (C) Debit & credit balance | (D) None of these |

23. पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य को कहते हैं –

- | | |
|--------------|----------|
| (A) लाभ | (B) हानि |
| (C) प्राप्ति | (D) व्यय |

Excess of credit side over the debit side in Revaluation Account is-

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) Profit | (B) Loss |
| (C) Receipt | (D) Expense |

24. वर्तमान साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है –

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| A. फर्म का पुनर्मूल्यांकन | (B) फर्म का पुनर्गठन |
|---------------------------|----------------------|

(C) फर्म का समापन (D) इनमें से कोई नहीं

Change in profit sharing ratio of existing partners result in -

(A) Revaluation of firm (B) Reconstitution of firm

(C) Dissolution of firm (D) None of these

25. साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व को लेखा करने पर होगा –

(A) वर्तमान साझेदारों को लाभ

(B) वर्तमान साझेदारों को हानि

(C) वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि

(D) इनमें से कोई नहीं

On reconstitution of partnership firm, recording of an unrecorded

liability will result in -

(A) Gain to the existing partners

(B) Loss to the existing partners

(C) Neither gain nor loss to the existing partners

(D) None of these

26. ख्याति है –

A. मूर्त सम्पत्ति (B) अमूर्त सम्पत्ति

(C) चालू सम्पत्ति (D) इनमें से कोई नहीं

Goodwill is -

(A) Tangible asset (B) Intangible asset

(C) Current asset (D) None of these

27. सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है –

(A) अधिलाभ (B) निश्चित लाभ

(C) असामान्य लाभ (D) सामान्य लाभ

The excess of average profit over the normal profit is called -

(A) Super profit (B) Fixed profit

(C) Abnormal profit (D) Normal profit

28. पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं –

(A) पुराने साझेदार (B) नये साझेदार

(C) सभी साझेदार (D) केवल दो साझेदार

Profit or Loss on Revaluation is born by -

(A) Old partners (B) New partners

(C) All partners (D) Only two partners

29. नये साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बाँटी

जाती है –

(A) त्याग अनुपात में (B) पुराने अनुपात में

(C) नये अनुपात में (D) बराबर अनुपात में

Share of goodwill brought by new partner in cash is shared by old
partners in -

(A) Sacrificing Ratio (B) Old Ratio

(C) New Ratio (D) Equally

30. संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जायेगा –

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (A) वसूली खाते | (B) पूँजी खाते |
| (C) बैंक खाते | (D) इनमें से कोई नहीं |

The accumulated profit and reserve are transferred to :-

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (A) Realisation Account | (B) Capital Account |
| (C) Bank Account | (D) None of these |

31. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूँजी खाते में क्रेडिट की जा सकती है ?

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| (A) अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के | (B) शेष साझेदारों के |
| (C) सभी साझेदारों को | |
| (D) इनमें से कोई नहीं | |

On retirement of partner, full amount of goodwill can be credited in which capital account ?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (A) Retiring partner | (B) Remaining partners |
| (C) All partners | (D) None of these |

32. सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के बीच पूँजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है –

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (A) नये लाभ अनुपात में | (B) पूँजी के अनुपात में |
|------------------------|-------------------------|

(C) पुराने लाभ-हानि अनुपात में (D) इनमें से कोई नहीं

The amount of General reserve is transferred to all partners capital accounts in -

(A) New profit sharing Ratio (B) Capital Ratio

(C) Old profit sharing Ratio (D) None of these

33. साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है –

(A) नाममात्र (B) व्यक्तिगत

(C) दायित्व (D) सम्पत्ति

JLP of the partners is an account :-

(A) Nominal (B) Personal

(C) Liability (D) Asset

34. साझेदार की मृत्यु पर अन्तिम भुगतान होता है –

(A) पूँजी खाता से (B) निष्पादक खाता से

(C) चालू खाता से (D) इनमें से कोई नहीं

On the death of a partner, Final payments are made through -

(A) Capital A/C (B) Executor's A/C

(C) Current A/C (D) None of these

35. मृतक साझेदार को देय राशि चुकायी जाती है उसके :–

(A) पिता को (B) दोस्त को

(C) पत्नी को (D) उत्तराधिकारी को

The amount due to the deceased partner is paid to his -

(A) Father (B) Friend

(C) Wife (D) Executors

36. वसूली खाता है –

(A) व्यक्तिगत खाता (B) नाममात्र खाता

(C) वास्तविक खाता (D) इनमें से कोई नहीं

Realisation Account is -

(A) Personal A/C (B) Nominal A/C

(C) Real A/C (D) None of these

37. साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है :-

(A) बहुमत के आधार पर (B) $\frac{3}{4}$ सदस्यों के निर्णय पर

(C) $\frac{1}{2}$ सदस्यों के निर्णय पर (D) इनमें से कोई नहीं

A firm can be voluntarily dissolved by the partners :-

(A) On majority basis (B) on $\frac{3}{4}$ members decision

(C) On $\frac{1}{2}$ members decision (D) None of these

38. जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जायेगा ?

(A) वसूली खाता (B) रोकड़ खाता

- (C) साझेदार का पैंजी (D) इनमें से कोई नहीं

When a partner takes responsibility to make payment of any outside Liability of the firm, the account credited will be ?

- (A) Realisation A/C (B) Cash A/C

- (C) Partners Capital A/C (D) None of these

39. फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं –

- (A) वसूली व्यय (B) कानूनी व्यय

- (C) आयगत व्यय (D) इनमें से कोई नहीं

Expenses on dissolution of firm is called :-

- (A) Realisation expenses (B) Legal expenses

- (C) Revenue expenses (D) None of these

40. फर्म के बिघटन पर, साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है :-

- (A) वसूली खाते में (B) साझेदारों के पैंजी खाते में

- (C) उचंत खाते में (D) इनमें से कोई नहीं

On dissolution of a firm, partners Loan A/C is transferred to :-

- (A) Realisation A/C (B) Partners Capital A/C

- (C) Suspense A/C (D) None of these

41. फर्म के बिघटन के समय सम्पत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है ?

(A) डेबिट पक्ष

(B) क्रेडिट पक्ष

(C) न A और न B

(D) इनमें से कोई नहीं

At the time of dissolution of firm, book value of Assets is recorded
in which side of the Realisation A/C ?

(A) Debit side

(B) Credit side

(C) Neither A nor B

(D) None of these

42. फर्म के बिघटन के समय साझेदारों के पूँजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया
जाता है –

(A) साझेदारों को

(B) पत्नी को

(C) दोस्त को

(D) इनमें से कोई नहीं

Payment of credit balance of partners capital Accounts at the time
of dissolution of a firm is made to :-

(A) Partners

(B) Wife

(C) Friend

(D) None of these

43. फर्म के बिघटन पर अलिखित सम्पति के बिक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया
जाता है –

(A) साझेदारों के पूँजी खाते में

(B) रोकड़ खाता में

(C) वसूली खाता में

(D) पुनर्मूल्यांकन खाता में

On dissolution of a firm, amount realised from an unrecorded asset
is credited to :-

(A) Partners capital A/C (B) Cash A/C

(C) Realisation A/C (D) Revaluation A/C

44. समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है ?

(A) दायित्व (B) सम्पत्ति

(C) डेबिट (D) क्रेडिट

Realisation expenses are recorded in which side of Realisation Account ?

(A) Liabilities (B) Asset

(C) Debit (D) Credit

45. ऋणपत्रों पर देय ब्याज है :-

(A) लाभों का विनियोजन (B) लाभों के विरुद्ध एक प्रभार

(C) सिंकिंग फण्ड में हस्तांतरण (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Interest payable on debentures is :-

(A) An appropriation of profits

(B) A charge against profit

(C) Transfer to sinking fund

(D) None of above

46. ऋणपत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि है –

(A) पूँजीगत प्राप्तियाँ (B) आयगत प्राप्तियाँ

(C) पूँजीगत एवं आयगत प्राप्तियाँ (D) इनमें से कोई नहीं

Amount received from the issue of debentures is :-

(A) Capital Receipts

(B) Revenue Receipts

(C) Capital & Revenue Receipts

(D) None of these

47. ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती है :—

(A) स्थायी सम्पत्ति

(B) चालू सम्पत्ति

(C) वास्तविक सम्पत्ति

(D) कृत्रिम सम्पत्ति

Discount on issue of debentures is :-

(A) Fixed Asset

(B) Current Asset

(C) Real Asset

(D) Fictitious Asset

48. ऋणपत्रों का बिमोचन नहीं किया जा सकता :—

(A) प्रीमियम पर

(B) बट्टा पर

(C) सम पर

(D) इनमें से कोई नहीं

Debentures can not be redeemed at :-

(A) Premium

(B) Discount

(C) Par

(D) None of these

49. कम्पनी के समापन पर ऋणपत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है :—

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (A) सबसे पहले | (B) सबके बाद |
| (C) समता पूँजी से पहले | (D) इनमें से कोई नहीं |

On liquidation of a company, principal amount of debenture is returned :-

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (A) First of all | (B) Last of all |
| (C) Before equity capital | (D) None of these |
50. ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है ?

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (A) आयगत हानि | (B) पूँजीगत हानि |
| (C) स्थगित आयगत व्यय | (D) इनमें से कोई नहीं |

Discount on issue of debentures is of which nature ?

- | | |
|----------------------------------|--|
| (A) Revenue Loss | |
| (B) Capital Loss | |
| (C) Deferred Revenue Expenditure | |
| (D) None of these | |
51. एक कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे में, ऋणपत्रों को किस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है ?

- | | |
|------------------|---------------------|
| (A) असुरक्षित ऋण | (B) दीर्घकालीन ऋण |
| (C) चालू दायित्व | (D) संचय एवं अधिशेष |

In the Balance-Sheet of a company, debentures are shown under which head ?

(A) Unsecured Loan

(B) Long term Loan

(C) Current Liability

(D) Reserve & Surplus

52. ऋणपत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं, कहे जाते हैं ?

(A) रजिस्टर्ड ऋणपत्र

(B) प्रथम ऋणपत्र

(C) वाहक ऋणपत्र

(D) इनमें से कोई नहीं

Debentures which are transferred by mere delivery are called ?

(A) Registered debentures (B) First debentures

(C) Bearer debenture

(D) None of these

53. यदि विक्रेताओं को ₹ 5,00,000 की शुद्ध सम्पत्तियों के प्रतिफल के बदले ₹ 4,50,000 के ऋणपत्र निर्गमित किये जाते हैं तो शेष ₹ 50,000 किस खाते में क्रेडिट किये जायेंगे ?

(A) लाभ-हानि विवरण

(B) ख्याति खाता

(C) सामान्य संचय खाता

(D) पूँजी संचय खाता

If debentures of Rs. 4,50,000 are issued to the sellers for the consideration of net assets of Rs. 5,00,000 balance Rs. 50,000 will be credited to which account ?

(A) Profit & Loss statement (B) Goodwill account

(C) General Reserve A/C

(D) Capital Reserve A/C

54. बैंक से लिये गये ऋण के लिये ऋणपत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किये जाने पर किस खाते को डेबिट किया जायेगा ?

(A) बैंक खाता

(B) बैंक ऋण खाता

(C) ऋणखाता

(D) ऋणपत्र उचंती खाता

In case of issue of debentures as a collateral security for loan taken from the bank, which account will be debited ?

(A) Bank Account

(B) Bank Loan A/C

(C) Debenture A/C

(D) Debenture Suspense Account

55. अपने ऋणपत्रों के, रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है :-

(A) लाभ-हानि विवरण में

(B) लाभ-हानि विनियोजन विवरण में

(C) सामान्य संचय खाता

(D) पूँजी संचय खाता

Profit on cancellation of own debentures is transferred to :-

(A) Profit & Loss statement

(B) Profit & Loss appropriation statement

(C) General Reserve A/C

(D) Capital Reserve Account

56. कम्पनी नियम 2014 के अनुसार, शोधन के पूर्व शोधनीय ऋण-पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम कितने प्रतिशत से ऋणपत्र शोधन का निर्माण करना होगा ?

(A) 50 %

(B) 25 %

(C) 70 %

(D) 100 %

According to Company Rules 2014, a company will have to create Debenture Redemption Reserve atleast how much percentage of the face value of redeemable debentures ?

(A) 50 % (B) 25 %

(C) 70 % (D) 100 %

57. सिकिंग फण्ड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है –

(A) लाभ–हानि विवरण में (B) सिंकिंग फण्ड खाता में

(C) सामान्य संचय खाता में (D) सिकिंग फण्ड निवेश खाता में

Interest on Sinking Fund Investment is Credited to :-

(A) Profit and Loss statement (B) Sinking Fund A/C

(C) General Reserve A/C (D) Sinking Fund Investment A/C

58. खुले बाजार से क्रय किये गये ऋण पत्रों को यदि तुरन्त रद्द नहीं किया जाता है तो यह है ?

(A) चालू सम्पत्ति (B) चालू दायित्व

(C) विनियोग (D) लाभ

If debenture purchased in open market are not immediately cancelled, they are ?

(A) Current Assets (B) Current Liabilities

(C) Investment (D) Profits

59. जब सभी ऋणपत्रों का शोधन कर लिया जाता है, तो ऋणपत्र शोधन कोष खाता के शेष को हस्तांतरित किया जाता है ?

- (A) पूँजी संचय में (B) सामान्य संचय में
(C) लाभ-हानि नियोजन विवरण में (D) इनमें से कोई नहीं

When all debentures are redeemed, the balance in the Debenture Redemption Fund A/C is transferred to ?

- (A) Capital Reserve
(B) General Reserve
(C) Profits & loss appropriation Statement
(D) None of these

60. ऋणपत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता है :-

- (A) व्यक्तिगत खाता (B) वास्तविक खाता
(C) नाममात्र खाता (D) उचन्ती खाता

Premium on Redemption of Debenture A/C is -

- (A) Personal account (B) Real account
(C) Nominal account (D) Suspense account

61. सामग्री के उपयोग के आधार पर, इनमें से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है ?

- (A) आन्तरिक विश्लेषण (B) बाह्य विश्लेषण
(C) आन्तरिक अंकेक्षण (D) A एवं B दोनों

Which of the following is a type of financial analysis on the basis of material used ?

(A) Internal Analysis (B) External Analysis

(C) Internal Audit (D) A and B both

62. निम्न में से कौन-सा कथन सही है ?

(A) प्रतिधारित आय = कुल आगम

(B) प्रतिधारित आय = कुल आगम - व्यय

(C) प्रतिधारित आय = सकल लाभ

(D) उपरोक्त में कोई नहीं

Which of the following statement is correct ?

(A) Retained Earning = Total Income

(B) Retained Earning = Total Revenue - Expenses

(C) Retained Earning = Gross Profit

(D) None of the above

63. जब दो या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाय तो इसे कहा जाता है ?

(A) आन्तरिक फर्म विश्लेषण (B) अन्तर संस्था विश्लेषण

(C) शीर्ष विश्लेषण (D) इनमें से कोई नहीं

When financial statements of two or more organisations are analysed, it is called ?

(A) Inter-firm Analysis (B) Intra-firm analysis

(C) Vertical Analysis (D) None of these

64. निम्न में से कौन-सी वित्तीय विवरण की सीमा है ?

(A) दिखावटीपन (B) मूल्यांकन का आधार

(C) शुद्धता की कमी (D) उपरोक्त सभी

Which of the following is limitation of financial Analysis ?

(A) Window-dressing (B) Basis of valuation

(C) Lack of Accuracy (D) All the above

65. प्रक्रिया के आधार पर निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं ?

(A) क्षैतिज विश्लेषण (B) शीर्ष विश्लेषण

(C) अनुपात विश्लेषण (D) A एवं B दोनों

On the basis of process, which of the following is the type of financial Analysis ?

(A) Horizontal Analysis (B) Vertical Analysis

(C) Ratio Analysis (D) A and B both

66. संचालकों की रिपोर्ट कम्पनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है ?

(A) संचालकों की सभा (B) वार्षिक साधारण सभा

(C) प्रबंधकों की सभा (D) उपरोक्त सभी

In which Meeting of company, directors report is presented ?

(A) Directors meeting (B) Annual General meeting

(C) Managers meeting (D) All the above

67. निम्न में से कौन-सा कथन सही है ?

(A) सम्पत्तियाँ = दायित्व + अंशधारियों का कोष

(B) सम्पत्तियाँ = कुल कोष

(C) सम्पत्तियों = बाहरी व्यक्तियों के कोष

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following statement is correct ?

(A) Assets = Liability + Shareholders Fund

(B) Assets = Total Fund

(C) Assets = funds of outsiders

(D) None of the above

68. लाभ व हानि खाते विवरण को भी कहते हैं :-

(A) आर्थिक चिट्ठा (B) आय विवरण

(C) परिचालन लाभ (D) विनियोग

Statement of profit & loss A/C also called :-

(A) Balance-Sheet (B) Income Statement

(C) Operating profit (D) Investment

69. चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी सूचनायें प्रस्तुत करता है :-

(A) दी गई विशेष समय पर (B) विशेष अवधि के दौरान

- (C) विशेष अवधि के लिये (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Balance sheet provides information about financial position of the enterprise :-

- (A) At a point of time (B) Over a period of time
(C) For a period of time (D) None the above

70. एक व्यापारिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं :-

- (A) चिट्ठा (B) लाभ-हानि विवरण
(C) रोकड़ प्रवाह विवरण (D) उपरोक्त सभी

The financial statement of a business enterprise include :-

- (A) Balance Sheet (B) Profit and Loss statement
(C) Cash Flow Statement (D) All of the above

71. प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किये जाते हैं :-

- (A) प्रावैगिक विश्लेषण (B) स्थैतिक विश्लेषण
(C) क्षैतिज विश्लेषण (D) लम्बवत विश्लेषण

Trend ratios and trend percentage are used in :-

- (A) Dynamic Analysis (B) Static Analysis
(C) Horizontal Analysis (D) Vertical Anlaysis

72. वित्तीय विवरणों की तुलना के लिये उपकरण है -

- (A) तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा (B) तुलनात्मक आय-विवरण
(C) समरूप विवरण (D) उपर्युक्त सभी

Tools for comparison of financial statement are :-

- (A) Comparative Balance Sheet
- (B) Comparative Income Statement
- (C) Common-size-statement
- (D) All of the above

73. प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिये किसी भी वर्ष को चुना जा सकता है ?

- (A) चालू वर्ष
- (B) गत वर्ष
- (C) आधार वर्ष
- (D) इनमें से कोई नहीं

For calculating trend percentage, any year can be selected as ?

- (A) Current year
- (B) Previous year
- (C) Base year
- (D) None of these

74. एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है :—

- (A) बाह्य विश्लेषण
- (B) आन्तरिक विश्लेषण
- (C) लम्बवत विश्लेषण
- (D) क्षैतिज विश्लेषण

The analysis of Financial Statement by a shareholders is an example of :-

- (A) External Analysis
- (B) Internal Analysis
- (C) Vertical Analysis
- (D) Horizontal Analysis

75. वित्तीय विश्लेषण के लिये उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त है :—

(A) तुलनात्मक विवरण (B) सामान्य आकार विवरण

(C) लेखांकन अनुपात (D) उपर्युक्त सभी

The most commonly used tools for financial analysis are :-

(A) Comparative statement (B) Common-size statement

(C) Accounting Ratios (D) All of the above

76. समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है –

(A) गतिशील विश्लेषण (B) क्षैतिज विश्लेषण

(C) लम्बवत विश्लेषण (D) बाह्य विश्लेषण

Common-size statement are also known as :-

(A) Dynamic Analysis (B) Horizontal Analysis

(C) Vertical Analysis (D) External Analysis

77. आयकर का भुगतान माना जाता है –

(A) प्रत्यक्ष व्यय (B) अप्रत्यक्ष व्यय

(C) संचालन व्यय (D) इनमें से कोई नहीं

Payment of Income-tax is considered as :-

(A) Direct expenses (B) Indirect expenses

(C) Operating expenses (D) None of these

78. आदर्श तरल अनुपात है :–

(A) 2 : 1 (B) 1 : 1

(C) 5 : 1

(D) 4 : 1

The ideal liquid ratio is :-

(A) 2 : 1

(B) 1 : 1

(C) 5 : 1

(D) 4 : 1

79. जब चालू अनुपात 2 : 5 और चालू दायित्वों की राशि रु0 25000 है तो चालू सम्पत्तियों की राशि क्या होगी ?

(A) 62,500

(B) 12,500

(C) 10,000

(D) इनमें से कोई नहीं

When current ratio is 2 : 5 and the amount of current liability is Rs. 25,000, what is the amount of current assets ?

(A) 62,500

(B) 12,500

(C) 10,000

(D) None of these

80. तरल सम्पत्ति में शामिल नहीं है :-

(A) स्कन्ध

(B) देनदार

(C) प्राप्य बिल

(D) नकद

The term Quick-Assets do not include :-

(A) Stock

(B) Debtors

(C) B/R

(D) Cash

81. तरल अनुपात है :-

(A) $\frac{\text{तरल सम्पत्तियाँ}}{\text{चालू दायित्व}}$

(B) $\frac{\text{चालू दायित्व}}{\text{तरल सम्पत्तियाँ}}$

- (C) चालू सम्पत्तियाँ
चालू दायित्व (D) इनमें से कोई नहीं

Liquid ratio is :-

- A. Liquid Assets
Current Liability (B) Current Liability
Liquid Assets
C. Current Assets
Current Liability (D) None of these

82. चालू अनुपात में शामिल है :—

- (A) स्टॉक (B) देनदार
(C) रोकड़ (D) उपर्युक्त सभी

Current Ratio includes :-

- (A) Stock (B) Debtors
(C) Cash (D) All of the above

83. फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे :—

- (A) रोकड़ खाते (B) बैंक खाते
(C) वसूली खाते (D) पूँजी खाते

On dissolution of a firm, Bank overdraft is transferred to :-

- (A) Cash A/C (B) Bank A/C
(C) Realisation A/C (D) Capital A/C

84. उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है :—

- (A) औसत भुगतान अवधि (B) चालू अनुपात
(C) औसत संग्रह अवधि (D) इनमें से कोई नहीं

The useful in evaluating credit and collection policy are :-

(A) Average Payment Period (B) Current Ratio

(C) Average Collection Period (D) None of these

85. ऋण—समता अनुपात है :-

(A) तरलता अनुपात (B) क्रियाशीलता अनुपात

(C) शोधन क्षमता अनुपात (D) संचालन अनुपात

Debt-equity ratio is :-

(A) Liquidity Ratio (B) Activity Ratio

(C) Solvency Ratio (D) Operating Ratio

86. निम्न में से कौन—सा गैर—संचालन व्यय है ?

(A) किराया (B) विक्री व्यय

(C) मजदूरी (D) मशीन विक्री पर हानि

Which of the following is non-operating expenses ?

(A) Rent (B) Selling expense

(C) Wages (D) Loss on sale of machine

87. सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है ?

(A) शुद्ध नकद विक्री (B) शुद्ध उधार विक्री

(C) अन्तिम रहतिया (D) शुद्ध कुल विक्री

The gross profit ratio is ratio of gross profit and which ratio ?

(A) Net Cash Sales (B) Net Credit Sale

(C) Closing Stock (D) Net-Total Sales

88. लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है :-

(A) साधारण अनुपात (B) गुण

(C) प्रतिशत (D) उपर्युक्त सभी

Profitability Ratio are generally expressed in :-

(A) Simple Ratio (B) Times

(C) Percentage (D) All the above

89. इनमें से कौन—सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अन्तर्गत आती है ?

(A) समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियाँ

(B) नगद बिक्री

(C) बैंक में रोकड़

(D) भवन का क्रय

Which of the following activity comes under Financial Activities ?

(A) Receipts from issue of equity shares

(B) Cash Sales

(C) Cash at bank

(D) Purchase of Building

90. निम्न में से कौन एक गैर—रोकड़ मद है ?

(A) ह्लास

(B) ख्याति का अपलेखन

(C) A तथा B दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

Which one of the following is a non cash item ?

(A) Depreciation

(B) Writing-off Goodwill

(C) A and B both

(D) None of these

91. रोकड़ प्रवाह विवरण सम्बन्धित है :—

(A) ए0 एस-3

(B) ए0 एस-6

(C) ए0 एस-9

(D) ए0 एस-12

Cash flow statement is related to :-

(A) A.S.-3

(B) A.S.-6

(C) A.S.-9

(D) A.S.-12

92. संचालन क्रियाओं से रोकड़—प्रवाह में कमी आयेगी :—

(A) चालू सम्पति में वृद्धि

(B) चालू दायित्वों में कमी

(C) दोनों में कोई नहीं

(D) A तथा B दोनों

Cash flow from operating activities will decrease due to :-

(A) Increase in current Asset

(B) Decrease in current Liability

(C) Neither of the two

(D) Both A and B

93. निम्न में से कौन—सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है ?

(A) बैंक अधिविकर्ष (B) व्यापारिक पत्र

(C) ट्रेजरी बिल (D) विनियोग

Which of the following item is not considered as cash equivalent ?

(A) Bankoverdraft (B) Commercial paper

(C) Treasury Bill (D) Investment

94. नकद बिक्री है :-

(A) परिचालन क्रिया (B) विनियोजन क्रिया

(C) वित्तीय क्रिया (D) इनमें से कोई नहीं

Cash sales is :-

(A) Operating activity (B) Investing activity

(C) Financing activity (D) None of these

95. प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है :-

(A) रोकड़ का अन्तर्वाह (B) रोकड़ का वहिर्वाह

(C) न अन्तर्वाह और न वहिर्वाह (D) इनमें से कोई नहीं

Issue of shares in consideration of purchase of plant and machinery result into :-

(A) Inflow of cash

(B) Outflow of cash

(C) Neither inflow nor outflow of cash

(D) None of these

96. संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जायेगा ?

(A) लेनदारों में वृद्धि

(B) देनदारों में वृद्धि

(C) देनदारों में कमी

(D) पूर्वदत्त व्ययों में कमी

While calculating cash flow from operating activities, which will be deducted ?

(A) Increase in creditors

(B) Increase in debtors

(C) Decrease in debtors

(D) Decrease in prepaid expense

97. संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय निम्न में से कौन जोड़ा जायेगा:-

(A) स्टॉक में वृद्धि

(B) लेनदारों में वृद्धि

(C) देय विपत्रों में कमी

(D) इनमें से कोई नहीं

While calculating cash flow from operating activities, which of the following will be added ?

(A) Increase in Stock

(B) Increase in creditors

(C) Decrease in B/P

(D) None of these

98. साझेदार के पूँजी खाते को क्रेडिट किया जाता है :-

(A) पूँजी पर ब्याज से

(B) आहरण पर ब्याज से

(C) आहरण से

(D) हानि में हिस्सा से

The partners capital Account is credited with -

(A) Interest on capital (B) Interest on drawings

(C) Drawings (D) Share in Loss

99. नये साझेदार द्वारा नकद में लायी गई रव्याति कहलाती है :—

(A) सम्पत्ति (B) लाभ

(C) प्रीमियम (D) इनमें कोई नहीं

Share of goodwill brought in cash by the new partner is called :-

(A) Asset (B) Profit

(C) Premium (D) None of these

100. दायित्वों में कमी है :—

(A) दायित्व (B) हानि

(C) व्यय (D) लाभ

Decrease in the Liabilities is :-

(A) Liabilities (B) Loss

(C) Expense (D) Profit

खण्ड-ब / Section-B

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। $(15 \times 2 = 30)$

Question no. 1 to 30 are Short answer type. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks. $(15 \times 2 = 30)$

1. आय एवं व्यय खाता क्या है ?

What is Income and Expenditure Account ?

2. प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय-व्यय खाता में कोई दो अन्तर बताइए।

State any two differences between Receipt & Payment Account and Income & Expenditure A/C.

3. कम्पनी क्या है ?

What is Company?

4. साझेदारी का क्या आशय है ?

What is meant by partnership?

5. वसूली खाता तथा पुनर्मूल्यांकन खाता में अन्तर बतायें।

Distinguish between Realisation A/C and Revaluation A/C.

6. एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है ?

What is meant by reconstitution of partnership firm ?

7. ख्याति की दो विशेषताएँ बतायें।

State two features of Goodwill.

8. त्याग अनुपात क्या है ?

What is sacrificing ratio ?

9. वित्तीय विवरणों के चार तत्वों के नाम बतावें।

State the four name of the elements of Financial Statement.

10. अधिलाभ क्या है ?

What is Super profit ?

11. साझेदारी संलेख से क्या आशय है ?

What is meant by partnership deed ?

12. स्थायी पूँजी एवं परिवर्तनशील पूँजी में अन्तर बतायें।

Distinguish between Fixed capital and Fluctuating capital.

13. रोकड़ समतुल्य से क्या आशय है ?

What is meant by cash equivalents ?

14. रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने का उद्देश्य क्या है ?

What is the objective of preparing cash flow statement ?

15. संचालन चक्र से क्या आशय है?

What is meant by operating cycle ?

16. चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात में अन्तर कीजिए।

Distinguish between current ratio and quick ratio.

17. तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं ?

What is meant by comparative Financial Statements.

18. वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या हैं ?

What are the purposes of financial statements ?

19. ऋणपत्रों के विभिन्न प्रकारों के नाम बतायें।

State the name of various types of debentures.

20. निजी कम्पनी की कोई दो विशेषतायें बतायें।

Give two features of a private company.

21. साझेदारी के समापन एवं फर्म के समापन में दो अन्तर बतावें।

State two differences between dissolution of partnership and dissolution of firm.

22. अंश एवं ऋणपत्र में अन्तर बतायें।

Distinguish between shares and debentures.

23. दायित्व और आयोजन में क्या अन्तर है ?

What is the difference between Liabilities and Provisions?

24. तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार करने के कोई दो उद्देश्य बतायें।

State any two objectives of preparing comparative financial statement.

25. संचयी पूर्वधिकार अंश क्या है ?

What is cumulative preference shares ?

26. स्वैट समता अंश का क्या अर्थ है ?

What is meant by sweat equity shares ?

27. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की दो सीमाओं को बतावें।

State two Limitations of analysis of financial statements.

28. परिवर्तनशील ऋणपत्र से क्या आशय है ?

What is meant by Convertible Debentures?

29. स्वामित्व अनुपात क्या होता है ?

What is meant by proprietary Ratio ?

30. रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है ?

Why cash flow statement is prepared ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। (4x5=20)

Question no. 31 to 38 are Long answer type. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks. (4x5=20)

31. पूँजी कोष क्या है ? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है ?

What is capital Fund ? How is it calculated ?

32. लाभ-हानि खाता तथा लाभ-हानि नियोजन खाते में अन्तर कीजिए।

Differentiate between profit and loss account and profit and loss appropriation account.

33. ख्याति के व्यवहार के संबंध में लेखांकन मानक (ए0 एस0-26) का लेखांकन व्यवहार बतायें।

State accounting treatment of A.S.-26 regarding treatment of Goodwill.

34. मृतक साझेदार को देय राशि की गणना आप कैसे करेंगे ?

How will you compute the amount payable to a Deceased partner?

35. राम एण्ड कम्पनी ने मोना एण्ड कम्पनी से एक मशील रु0 4,00,000 में खरीदी। रु0 1,75,000 बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चुकाये गये और शेष के लिये राम एण्ड कम्पनी ने रु0 10 वाले समता अंश निर्गमित किये। कम्पनी की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों का लेखा कीजिए।

Ram & co. purchased Machinery from Mona & Co. for Rs. 4,00,000. A sum of Rs. 1,75,000 was paid by the means of a bankdraft and for the balance, Ram & co. issued equity shares of Rs. 10 each. Journalise the above transactions in the books of the company.

36. X Ltd. ने प्रत्येक 100 रु0 वाले 100, 6 प्रतिशत ऋणपत्रों का शोधन प्रत्येक 100 वाले समता अंशों में परिवर्तित करके किया। 6 प्रतिशत ऋणपत्र 10 प्रतिशत प्रीमियम पर शोधनीय है जिसके लिये समता अंशों को 25 प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। उपर्युक्त वर्णित ऋणपत्रों का X Ltd. की पुस्तकों में शोधन के लिये आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

X Ltd. redeemed 100, 6% debentures of Rs. 100 each by converting them into equity shares of Rs. 100 each. The 6% debentures were redeemable at 10% premium for which the equity shares were issued at 25% premium. Pass necessary Journal entries for the redemption of above mentioned debentures in the books of X Ltd.

37. निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण—समता अनुपात की गणना कीजिए :—

Rs.

कुल बाहरी दायित्व	500000
चिट्ठा का योग	1010000
चालू दायित्व	100000
अन्य चालू सम्पत्तियाँ	
प्रारंभिक व्यय	10000

Calculate the Debt-Equity Ratio from the following information :-

Rs.	
Total External Liabilities	500000
Balance Sheet total	1010000
Current Liabilities	100000
Other current Assets :-	
Preliminary Expenses	10000

38. निम्नलिखित विवरण से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :—

	2018 Rs.	2017 Rs.
लाभ-हानि खाता	110000	120000
देनदार	50000	62000
अदत्त किराया	24000	42000
ख्याति	80000	76000
पूर्वदत्त बीमा	8000	4000
लेनदार	26000	38000

Compute cash flow from operating activities by Indirect method
from the following details :-

	2018 Rs.	2017 Rs.
Profit and Loss A/C	110000	120000
Debtors	50000	62000
Outstanding Rent	24000	42000
Goodwill	80000	76000
Prepaid Insurance	8000	4000
Creditors	26000	38000